



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

#### विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

( सामान्य परिनियम नियम )

प्रयागराज, शुक्रवार, 6 जून, 2022 ई०  
(ज्येष्ठ 16, 1944 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 1003 / दो-प्राविधिक / यू०पी०डी०ए० / 1997-98

प्रयागराज, दिनांक : 6 जून, 2022 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि-40

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर यथासंशोधित राजस्व परिषद् की अधिसूचना संख्या-423-05/284-बी, दिनांक 26 सितम्बर, 1910 के अधीन यथा प्रकाशित निजी भू-गृहादि या सरकार के स्वामित्वाधीन भू-गृहादि में आसवनी चलाने के लिए लाइसेंसों से सम्बन्धित नियमावली में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

**उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022**

**1-संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ**-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(दो) यह गज़ट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2-नियम 2 का संशोधन-** उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) नियमावली, 1910 में नियम 2 में, उप नियम (5) में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए खण्ड (ड) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

#### स्तम्भ-1

##### विद्यमान खण्ड

(ड) ऐसी आसवनियां, जो औद्योगिक तथा पेय मदिरा दोनों का निर्माण करती हों (मिश्रित आसवनियां) को उनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता का नब्बे प्रतिशत तक पेय मदिरा निर्माण किये जाने की अनुमति निम्न निबंधनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी-

(i) आसवनी द्वारा गत वित्तीय वर्ष में अधिष्ठापित पेय क्षमता का साठ प्रतिशत अथवा चालू वर्ष के पूर्ववर्ती माहों की समानुपातिक अधिष्ठापित पेय क्षमता का साठ प्रतिशत तक उपभोग कर लिया गया हो।

(ii) आसवनी द्वारा समस्त सरकारी देयों का भुगतान कर दिया गया हो।

#### स्तम्भ-2

##### एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ड) ऐसी आसवनियां, जो औद्योगिक तथा पेय मदिरा दोनों का विनिर्माण करती हों (मिश्रित आसवनियां) को उनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता का नब्बे प्रतिशत तक पेय मदिरा विनिर्मित किये जाने की अनुमति निम्न निबंधनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकती है ;

(एक) आसवनी ने गत वित्तीय वर्ष में अपनी अधिष्ठापित पेय क्षमता का कम से कम साठ प्रतिशत अथवा चालू वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती माहों में अनुपातिक रूप से अधिष्ठापित पेय क्षमता का साठ प्रतिशत तक उपभोग कर लिया हो।

(ii) आसवनी ने समस्त सरकारी देयों का भुगतान कर दिया गया हो।

परन्तु यह कि ऐसी आसवनियों, जिनमें तीन पूर्ववर्ती क्रमागत वर्षों के दौरान अशुद्ध स्प्रिट (इम्प्योर स्प्रिट) की मात्रा 5.0 प्रतिशत से कम रही हो, के सम्बन्ध में सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा परीक्षण किये जाने के पश्चात् और शासन के पूर्व अनुमोदन से पेय क्षमता में प्रतिष्ठापित क्षमता के 95.0 प्रतिशत तक की वृद्धि अनुज्ञात की जायेगी।

आज्ञा से,  
(सैंथिल पांडियन सी0)  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 1003 /Do-Pravidhik/UPDA/1997-98

Prayagraj, dated: June 6, 2022

#### NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, makes the following rules with a view to amending rules regarding licences for working distilleries in private or in premises owned by Government, as published under the Board of Revenue notification no. 423-V/284-B, dated September 26, 1910 as amended from time to time.

UTTAR PRADESH EXCISE (ESTABLISHMENT OF DISTILLERIES)  
(SIXTEENTH AMENDMENT) Rules, 2022

**1. Short title and Commencement**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Establishment of Distilleries) (Sixteenth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

**2. Amendment of rule-2**— In the Uttar Pradesh Excise (Establishment of Distilleries) Rules, 1910, in rule 2, in sub-rules for clause(e) setout in Column-I below, the clause as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

**Column I**

*Existing Clause*

(e) Such distilleries which are manufacturing both the industrial and potable liquour (mixed distilleries) may be allowed to manufacture potable liquour upto ninety per cent of their total installed capacity subject to the following terms and conditions;

(i) The distillery has consumed at least sixty per cent of its installed potable capacity in the immediate preceding year or sixty per cent of proportionate installed potable capacity in the preceding months of current financial year.

(ii) The distillery has cleared all dues payable to the Government.

**Column II**

*Clause as hereby substituted*

(e) Such distilleries which are manufacturing both the industrial and potable liquour (mixed distilleries) may be allowed to manufacture potable liquour upto ninety per cent of their total installed capacity subject to the following terms and conditions;

(i) The distillery has consumed at least sixty per cent of its installed potable capacity in the immediate preceding year or sixty per cent of proportionate installed potable capacity in the preceding months of current financial year.

(ii) The distillery has cleared all dues payable to the Government.

Provided that on the documentary evidence provided by Assistant Excise Commissioner of such distilleries in which quantity of impure spirit has been less than 5.0 per cent during three previous successive years, increase in potable capacity upto 95.0 per cent of the installed capacity shall be allowed after examination by the Excise Commissioner and with prior approval of the Government.

By order,  
(Senthil Pandian C.)  
Excise Commissioner,  
Uttar Pradesh.